

पंचायत चुनाव में नकली नोट बांटकर वोट लेने की थी योजना, 7.70 लाख के नकली नोटों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार



Publish Date: Fri, 02 Apr 2021 06:46 PM (IST) Author: **Vinay Kumar Tiwari**

Panchayat Election नोट तैयार करने में प्रयुक्त उपकरण दो तमंचे 14 कारतूस 18 मोबाइल चोरी की बाइक बरामद आठ फर्जी आधार कार्ड दो प्रेस कार्ड डाक विभाग का आइडी कार्ड व अन्य दस्तावेज भी बरामद। नोटों की तस्करी करते आ रहे हैं।

हापुड़, [केशव त्यागी]। कोतवाली पुलिस ने बुलंदशहर रोड स्थित गांव चितौली मोड़ के पास से बृहस्पतिवार देर रात 7.70 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नकली नोटों की तस्करी करते आ रहे हैं। आरोपितों से नकली नोट बनाने में प्रयुक्त उपकरण, चोरी की बाइक, अवैध हथियार, कारतूस व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। यह नकली नोट जनपद बुलंदशहर के स्याना स्थित एक मकान में तैयार किए जा रहे थे।

एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि बृहस्पतिवार रात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सकसेना व चौकी सिकंदर गेट प्रभारी संदीप मलिक बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि भारी मात्रा में नकली नोटों के साथ दो आरोपित बुलंदशहर की ओर से हापुड़ की तरफ आ रहे हैं।

सूचना पर पुलिस ने बुलंदशहर रोड स्थित गांव चितौली मोड़ के पास चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को बाइक सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने आरोपितों ने मौके से फरार होने का प्रयास किया। लेकिन, पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपितों को दबोच लिया।

आरोपित जनपद बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव साठा चौरासी निवासी ललित व जनपद बिजनौर के कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव बक्शीवाला निवासी शमीम हैं। आरोपितों से 6.28 लाख रुपये के नकली नोट, 1.42 लाख रुपये के अधबने नोट, चोरी की बाइक, दो तमंचे, 14 कारतूस, 18 मोबाइल फोन, आठ फर्जी आधार कार्ड, दो नकली प्रेस कार्ड, एक नकली डाक विभाग का आइडी कार्ड व अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा आरोपितों की निशानदेही पर एक कंप्यूटर, एक कलर प्रिंटर व बाइक की फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। शमीम के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जनपदों के थानों में 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

पंचायती चुनाव में नकली नोटों को खपाने की थी साजिश

गिरफ्तार आरोपितों ने बताया कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नोटों की तस्करी कर रहे थे। पंचायती चुनाव में भारी मात्रा में नकली नोटों को खपाने की साजिश रची जा रही थी। नकली नोट शमीम बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान में तैयार कर रहा था। वहीं, ललित बुलंदशहर नगर क्षेत्र में स्थित साइबर कैफे पर नकली दस्तावेज तैयार करता था। इस गिरोह के कई अन्य लोग भी जुड़े हैं। पुलिस गिरोह से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

इंटरनेट से सीखा नकली नोट बनाने का तरीका

शमीम ने बताया कि वर्ष 2017 में जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह नाम व पता बदलकर अलग-अलग स्थानों पर रहने लगा। लाकडाउन के दौरान उसने नकली नोट बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा। इसके बाद उसने अपने साथी ललित संग मिलकर नकली नोट तैयार करने शुरू किए थे। जिसके बाद से दोनों इस गोरखधंधे को चलाते आ रहे हैं।

पुलिस से बचने के लिए बाइक पर लिखवाया प्रेस

आरोपितों ने बताया कि पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने बाइक पर प्रेस लिखवा रखा था। कई बार आरोपित स्वयं को एक न्यूज चैनल का पत्रकार बताकर पुलिस को चकमा दे चुके हैं। लेकिन, इस बार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों से न्यूज चैनल के फर्जी आइडी कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपित शमीम मोबाइल चोरी करने में माहिर है। फर्जी आइडी कार्ड व दस्तावेजों के आधार पर वह चोरी के मोबाइल विभिन्न दुकानदारों को बिक्री कर देता था।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hapur-city-there-was-a-plan-to-take-votes-in-panchayat-elections-by-distributing-fake-notes-two-smugglers-arrested-with-fake-notes-of-seven-lakh-seventy-thousand-21520580.html>

